

सन २००२-०३ या वर्षात अनुसूचित जमातीच्या
मुला- मुलीसाठी शासकीय वसतिगृह सुरु
करणेबाबत....

महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- आवगृ-१२००/प्र.क्र.५०/का-१२

ग. तालुक विसरतार, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक:- १७ जुलै, २००२

- वाचा:- १) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक - बीसीएच-१३८४/ ३६३२७/
का-१२, दिनांक १३ जुलै, १९८५.
- २) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक-आवगृ-१२९९/प्र.क्र.२८/
का-१(२), दिनांक - १ जून, २००२, २०. जून, २००२ य २१ जून, २००२.
- ३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक - बीयुडी-२००२/प्र.क्र.१५/
का-७, दिनांक - ३० मे, २००२.
- ४) शासन पत्र आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२००२/प्र.क्र. ४२/ का-७,
दिनांक १४ जून, २००२.
- ५) शासन निर्णय, क्रमांक - आवगृ-१२००/प्र.क्र. ५०/ का-१२, दि. २८ जून, २००२.
- ६) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक-वगृ-२००२/प्र.क्र.२८/
का-१(२), दिनांक १ जुलै, २००२.

शासन शुद्धीपत्रक :- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी / विद्यार्थीनीना उच्च शिक्षण घेणे सोयीचे
व्हावे याकरिता शासनाने उपरोक्त क्रमांक ५ येथील दिनांक २८ जून, २००२ च्या शासन निर्णयान्वे
सन २००२-२००३ या वर्षात ५३ शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. या
संदर्भात इमारत उपलब्धता य पुरेशा विद्यार्थ्यांची उपलब्धता याबाबतची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन
दिनांक २८ जून, २००२ च्या शासन निर्णयान्वये उंबरठाण, तालुका सुरगाणा, जिल्हा नाशिक
यांतिकाणी मंजूर केलेले वसतिगृह रद्द करून त्याएवजी अलंगुण, तालुका सुरगांगा जिल्हा
नाशिक यांतिकाणी वसतिगृह सुरु करण्यास शासन या शुद्धीपत्रकान्वये मंजूरी देत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(ग.शा. सोनावणे)

कार्यासन अधिकारी

प्रत. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक (३० प्रती)

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / नागपूर / अमरावती.

संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ / २, मुंबई / नागपूर.

महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र १ / २, मुंबई / नागपूर.

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ नागपूर/पुणे/ ठाणे / यवतमाळ/ गडचिरोली/ अमरावती
/ अहमदनगर / नांदेड/धुळे / नंदुरबार/अकोला / गोंदिया/चंद्रपूर/ भंडारा/ वर्धा/ जळगांव.

जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हानियोजन व विकास मंडळ, नाशिक/ नागपूर/पुणे/ ठाणे
/ यवतमाळ/ गडचिरोली/ अमरावती/अहमदनगर / नांदेड/धुळे / नंदुरबार/अकोला / गोंदिया/
चंद्रपूर/ भंडारा/ वर्धा/ जळगांव.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक/ नागपूर/पुणे/ ठाणे / यवतमाळ/
गडचिरोली/ अमरावती/ अहमदनगर / नांदेड/धुळे / नंदुरबार/अकोला/ गोंदिया/ चंद्रपूर/
भंडारा/ वर्धा/ जळगांव.

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/ नागपूर/पुणे/ ठाणे / यवतमाळ/
गडचिरोली/ अमरावती / अहमदनगर / नांदेड/धुळे / नंदुरबार /अकोला/गोंदिया/चंद्रपूर/
भंडारा/ वर्धा/ जळगांव.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

वित्त विभाग, (व्यय- ३४/ अर्थ-३. / अर्थ- १६) मंत्रालय, मुंबई - ३२

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला,

मंत्रालय, मुंबई - ३२

अवर सचिव (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

अवर सचिव (का-७), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे स्नाजगी सचिव :

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे स्नाजगी सचिव.

निवड नस्ती.